

Ch-2 राजेंद्र बाबू

1) प्र क) राज्जन पानी मीटर क्यों ले जा रहा था?

उ क) राज्जनसभा में आए हुए लोगों के लिए पानी मीटर ले जा रहा था ताकि वे नष्ट न सकें।

प्र ख) एक व्यक्ति ने राज्जन से क्या कहा?

उ ख) एक व्यक्ति ने राज्जन को बाल्टी देने को कहा ताकि वो भी नष्ट न सके।

प्र ग) राज्जन ने व्यक्ति को बाल्टी क्यों नहीं दी?

उ ग) राज्जन ने व्यक्ति को बाल्टी नहीं दी क्योंकि बाल्टी देने से उसे देर हो जाती और वह यह नहीं चाहता था।

प्र घ) राज्जन ने राजेंद्र बाबू से क्षमा क्यों माँगी?

उ घ) राज्जन को जब पता चला कि जैसे जैसे बाल्टी देने से मना किया था वो एक इतने बड़े आदमी है तो उसे बहुत शर्म आई और उसने राजेंद्र बाबू से क्षमा माँगी।

प्र ङ) व्यक्ति ने बाल्टी क्यों माँगी?

उ ङ) व्यक्ति ने बाल्टी इसलिए माँगी क्योंकि उसे भी नष्टना था।

प्र च) राजेंद्र बाबू कैसे व्यक्ति थे?

उ च) राजेंद्र बाबू एक सीधे-साधे, अंकार दान व्यक्ति थे

जिसने देश की सेवा करने में अपना जीवन बला दिया।